



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 26 July, 2022

PGCIL/R/2022/M-19

Shri Sumeet Mattoo,
Oriental Insurance Co.Ltd., 88 Janpath 1st Floor Above India Tourism, Delhi-110027

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 4 July, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,
जि. जातार (10)
27/7/22
(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Sumeet Mattoo, Janpath, New Delhi

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1	How many specialist officers are working across all PSU companies (essential service companies, Maharatna companies, Navratna companies etc.) owned by Central Govt. of India? You are requested to provide details of no. of specialist officers across these companies, company wise, specialization category wise (Doctors, Engineers, Lawyers, MBA etc.)	POWERGRID Recruitment Policy and Promotion Policy does not specify generalist posts or specialist posts. Responsibilities and duties for employees are based on nature of function and roles in which they deployed. Therefore, no such data is maintained in the form requested.
2.	What are the core and non-core benefits being provided to specialist officers across all central government owned PSU? What is the starting salary and benefits of a Specialist Officer in all PSU companies.	No such definition of 'core' and 'non-core' benefits exists in our policy. However, various benefits applicable to POWERGRID employees are enlisted on POWERGRID Website under the RTI Section under the head "Monthly remuneration received by officers & employees including system of compensation".
3	What are the steps taken/deployed by PSU companies to utilize specialist officers in the company, if any? Are there any gazette notifications, directives or guidelines issued by central govt. in any year since independence enforcing the PSU companies to treat specialist officers different than generalist officers?	
4	How many PSU companies have more than one category of specialist officers employed? Are different category of specialist officers treated at par across the same company / industry in form of core and non-core benefits? Kindly provide details of difference if they exists.	POWERGRID Recruitment Policy and Promotion Policy does not specify generalist posts or specialist posts. Responsibilities and duties for employees are based on nature of function and roles in which they deployed. Therefore, no such data is maintained in the form as requested.
5	How many PSU companies have different promotion policy for specialist officers? Kindly elaborate company wise, specialization wise the difference in promotion policy of such specialist officers.	
6	How many specialist officers are utilized for the purpose of which they were recruited and how many of them are posted in departments, which are not related to their specialization?	

श्रीशुभा